

**Annual Examination Syllabus**  
**Class IX**

**HINDI: अपठित बोध:-**

अपठित गद्यांश

अपठित काव्यांश

व्याकरण:-

उपसर्ग / प्रत्यय

समास

अर्थ के आधार पर वाक्य भेद

अलंकार- अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक

साहित्य (गद्य):-

दो बैलों की कथा

ल्हासा की ओर

उपभोक्तावाद की संस्कृति

साँवले सपनों की याद

प्रेमचन्द के फटे जूते

मेरे बचपन के दिन

साहित्य काव्य:-

साखियाँ एवं सबद

वाख

सवैये

कैदी और कोकिला

ग्राम श्री

मेघ आए

बच्चे काम पर जा रहे हैं

**कृतिका:-**

1- मेरे संग की औरतें

2- इस जल प्रलय में

3- रीढ़ की हड्डी

## **लेखन:-**

- अनुच्छेद लेखन
- पत्र लेखन - औपचारिक / अनौपचारिक
- लघुकथा , ईमेल लेखन
- संवाद , सूचना लेखन

## **ENGLISH:**

### **Section A Reading Skills**

I. Reading Comprehension through Unseen Passage 20 Marks

1. Discursive passage of 400-450 words. (10 marks)

2. Case-based factual passage (with visual input- statistical data/chart etc.) of 200-250 words (10 marks)

### **Section B Writing Skills 10 Marks**

Diary Entry, Paragraph Writing, Bio -sketch Informal letter ,Story writing.

Grammar 10 Marks

Determiners Tenses Modals Subject - verb concord Reported speech Accurate use of spelling, punctuation and grammar will be assessed through Gap Filling/ Editing/Transformation exercises.

### **Section C**

#### **Beehive Prose**

1. The Fun They Had
2. A Truly Beautiful Mind
3. The Sound of Music
4. The Snake and the Mirror
5. The Little Girl
6. My Childhood
7. Reach For The Top
8. Kathmandu
9. If I were You

#### **Poems**

1. The Road Not taken
2. A Legend of the Northland
3. Wind
4. No Men Are Foreign
5. Rain on The Roof
6. On killing a tree
7. The Lake Isle of Innisfree
8. A Slumber Did My Spirit Seal

#### **Moments**

1. The Lost Child
2. The Happy Prince
3. The adventures of Toto
4. The Last Leaf
5. Iswaran the Storyteller
6. A House is not a Home
7. In the kingdom of fools
8. The Beggar

## **MATHS:**

Number System

Polynomials

Linear equations in two variables  
Coordinate geometry  
Quadrilaterals  
Circles  
Heron's Formula  
Surface area and volume ( cone,sphere, hemisphere)  
Statistics  
Probability

## **SCIENCE:**

### **PHYSICS:-**

- 1.Motion
2. Force and Laws of Motion
3. Gravitation
4. Work and Energy
5. Sound

### **BIOLOGY:**

1. Fundamental Unit of Life: The Cell
2. Tissues
3. Improvement in Food Resources.

### **CHEMISTRY:**

- 1.Matter in our surroundings.
- 2.Is Matter around us pure?
3. Atoms and Molecules.
4. Structure of the Atom.

## **HISTORY:**

- Ch1.The French Revolution  
Ch2. Socialism in Europe and the Russian Revolution  
Ch3. Nazism and the Rise of Hitler  
Ch4. Forest Society and Colonialism

## **POLITICAL SCIENCE:**

- Ch1. What is Democracy? Why Democracy?  
Ch2. Constitutional Design  
Ch3. Electoral Politics

Ch4.Working of Institutions

Ch5. Democratic Rights

**GEOGRAPHY:**

1. Size and location
2. Physical features of India
3. Climate
4. Population
5. Map work: mountain ranges, coastal plains, annual rainfall , population high and low density, states and capital

Economics

1. Village palampur
2. People as a resource
3. Poverty as a challenge
4. Food security

**COMPUTER APPLICATIONS:**

Chapter 1- Basics of information Technology

Chapter 6-Working with spreadsheet

Chapter 7-Data Analysis

Programing in python

- Basic programing
- If and If -Elif
- For loop
- While loop
- List